



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 264]
No. 264]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 1984/आषाढ़ 27, 1906
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 1984/ASADHA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1984

अधिसूचना

सं. 201/84-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 514(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 21-सीमा-शुल्क, तारीख 11 मार्च, 1967 को अतिष्ठित करते हुए, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र और उसके चारों ओर आठ किलोमीटर की समान दूरी तक के क्षेत्र के लिए,—

- (क) सीमाशुल्क उप कलक्टर, कांडला को सीमाशुल्क अपर कलक्टर,
- (ख) सीमाशुल्क सहायक कलक्टर, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र को सीमाशुल्क सहायक कलक्टर,
- (ग) मूल्य निरूपक, परीक्षक और निरोधक अधिकारी, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र को सीमाशुल्क अधिकारी,

(ग) प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, जमादार, सुरक्षा गारद और सिपाही, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र को, खण्ड (क) में 'विनिर्दिष्ट' सीमाशुल्क अपर कलक्टर की अधिकारिता के भीतर, सीमा-शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में उन सर्वेक्षण संख्याओं वाले और उन सीमाओं से घिरे हुए स्थान समाविष्ट होंगे जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, अधिसूचना सं. 77-सीमाशुल्क, तारीख 17 अप्रैल, 1980 के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

[फा. सं. 361/3/84-सीमा-11
एम. एन. बिसवास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th July, 1984

NOTIFICATION

NO. 201/84-CUSTOMS

G.S.R. 514(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Cus-

toms Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 21-Customs, dated the 11th March, 1967, the Central Government hereby appoints—

- (a) Deputy Collector of Customs, Kandla, to be the Additional Collector of Customs;
- (b) Assistant Collector of Customs, Kandla Free Trade Zone, to be the Assistant Collector of Customs;
- (c) Appraiser, Examiner and Preventive Officer, Kandla Free Trade Zone, to be Officers of Customs;
- (d) Administrative Officer, Security Officer, Jamadars, Security Guards and Sepoys,

Kandla Free Trade Zone to be Officers of Customs within the jurisdiction of the Additional Collector of Customs specified in clause (a),

for the Kandla Free Trade Zone and the area within a radius of 8 kilometres all around that Zone.

Explanation.—For the purposes of this notification, the Kandla Free Trade Zone shall comprise the places bearing the survey numbers and enclosed by the boundaries as are specified in paragraph 3 of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 77-Customs, dated the 17th April, 1980, issued under sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 361/3/84-CUS-I.]
M. N. BISWAS, Under Secy.